



हम से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखें...

हम सम्मान के साथ आप का इलाज करना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो।
हम समझते हैं कि आप किसी चिकित्सा उपचार को मना कर सकते हैं या आप दूसरे चिकित्सक की राय ले सकते हैं।



संपर्क

Avª Carlos Andrade, S/N
2660-243 Santo António dos Cavaleiros
Telephones: 219897842 - Yellow wing (Floor 1)
219897841 - Green wing (Floor 1)
Fax: 219897822
E-mail: arsmédica@csloures.min-saude.pt



मरीजों के अधिकारों और
जिम्मेदारियों की सूचना

मरीजों के अधिकार



1. मरीज का अधिकार है कि उसका इलाज मानवीय गरिमा और सम्मान के साथ हो।
2. मरीज का अधिकार है कि उसकी सांस्कृतिक, दार्शनिक और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान हो।
3. मरीज का अधिकार है कि उसको उसके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार उपयुक्त निवारक, चिकित्सा, पुनर्वास या टर्मिनल देखभाल मिले।
4. मरीज का अधिकार है कि उसकी निरंतर देखभाल हो।
5. मरीज को उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, देखभाल और क्षमता का स्तर, जोखिम, लाभ और चिकित्सा प्रक्रियाओं के विकल्प के बारे में सूचना का अधिकार है।
6. मरीज का अधिकार है कि उसे उसके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी मिले।
7. मरीज को उसकी स्वास्थ्य कि स्थिति के बारे में एक दूसरी राय लेने का अधिकार है।
8. मरीज को अधिकार है कि वह किसी भी चिकित्सा कार्रवाई, किसी भी शोध या चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कार्रवाई में भाग ले या मना कर सके।
9. मरीज को उसकी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी और पहचान की गोपनीयता का अधिकार है।
10. मरीज को उसके स्वास्थ्य सम्बन्धी रिकार्ड पाने का अधिकार है।
11. मरीज को किसी भी चिकित्सा कार्य में गोपनीयता का अधिकार है।
12. मरीज या मरीज के प्रतिनिधि को सुझाओं या चिंताओं को बताने का अधिकार है।

मरीजों के दायित्व



1. मरीज की अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी है।
2. मरीज की जिम्मेदारी है कि वह रोग का सही पता लगाने और उपयुक्त इलाज के लिए, सभी आवश्यक जानकारी चिकित्सा कर्मियों को दे।
3. मरीज का कर्तव्य है कि वह अन्य रोगियों के अधिकारों का सम्मान करे।
4. मरीज का कर्तव्य है कि वह चिकित्सा कर्मियों से सहयोग करे, उनके दिए गए निर्देशों का सम्मान करे और उसे स्वतंत्र रूप से स्वीकार करे।
5. मरीज का कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं की कार्य पद्धति के नियमों का सम्मान करे।
6. मरीज का कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं का उचित ढंग से उपयोग करे और सक्रिय रूप से अनावश्यक खर्चों को कम करने में सहयोग करे।

